

देखभाल तथा अवसर के लिए योजना



2018 ऑंटारियो बजट: 10 मुख्य हाइलाइट

प्रांत की योजना में सेहत देखभाल, बच्चों की देखभाल (चाइल्ड केयर) तथा मानसिक सेहत में महत्वपूर्ण नए निवेश तथा सारे प्रांत में लोगों के लिए नौकरी के और अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए नए उपाय शामिल हैं। हाइलाइटों में शामिल हैं:



1. OHIP+ के द्वारा 65 साल तथा उस से अधिक उम्र के सारे लोगों के लिए निःशुल्क निर्धारित दवाएँ

65 साल तथा उस से अधिक उम्र के सारे लोगों के लिए निर्धारित दवाओं को पूरी तरह निःशुल्क बना कर, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी बुजुर्ग नागरिक को कभी भी जरूरी दवाओं के बिना रहने की जरूरत ना हो। ऑंटारियो ड्रग बेनेफिट की सालाना कटौती तथा को-पे को खतम करके, यह ऑंटारियो के सामान्य बुजुर्ग के लिए प्रति वर्ष \$240 की बचत करता है। OHIP+ में यह विस्तार 2017 ऑंटारियो बजट में 25 साल से कम उम्र के हरेक व्यक्ति के लिए निःशुल्क निर्धारित दवाओं की शुरुआत के बाद आ रहा है।



2. और अधिक चाइल्ड केयर, और अधिक विकल्प

ढाई साल की उमर के बच्चों के लिए उनके किंडरगार्टन के लिए योग्य हो जाने तक प्रीस्कूल चाइल्ड केयर को निःशुल्क बना कर बच्चों की किफायती, गुणवत्ता वाली, देखभाल मुहैया करना। यह एक बच्चे वाले परिवार के लिए औसतन \$17,000 बचाता है तथा उन बचतों को बढ़ाता है जो परिवार फुल-डे किंडरगार्टन से प्राप्त करते हैं। आरंभिक शिक्षा ने बच्चों के पूरे जीवनो में उनके अकादमिक प्रदर्शन को सुधारने को प्रमाणित किया है।



3. नया ऑंटारियो ड्रग तथा डेंटल प्रोग्राम

एक नए ऑंटारियो ड्रग तथा डेंटल प्रोग्राम की शुरुआत करना, जो कार्यस्थल में सेहत संबंधी लाभों के बिना या OHIP+ या दूसरे सरकारी प्रोग्रामों के द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले लोगों के लिए हर साल योग्य निर्धारित दवाओं तथा दंत्य खर्चों का 80 प्रतिशत, प्रति अकेले व्यक्ति के लिए \$400, प्रति जोड़े के लिए \$600 तथा दो बच्चों वाले चार लोगों वाले परिवार के लिए \$700 तक वापस करता है।



4. सीनियरज़ हेल्थी होम प्रोग्राम

नए सीनियरज़ हेल्थी होम प्रोग्राम (Seniors' Healthy Home Program) की शुरुआत करना। यह वृद्ध बुजुर्गों के घर पर, जहाँ वे रहना चाहते हैं, से संबंधित लागतों को पहचानता है। यह 75 साल या उस से अधिक उम्र के बुजुर्गों की अगवाड़ी वाले योग्य घरों के लिए उनको स्वावलंबन से रहने तथा उनके घर की देख रेख की लागतों में सहायता करने के लिए \$750 तक का सालाना लाभ मुहैया करता है।



5. ज़्यादा मज़बूत अस्पताल, बेहतर देखभाल

देखभाल तक बेहतर पहुंच मुहैया करके, प्रतीक्षा के समयों को कम करके, सामर्थ्य संबंधी मुद्दों को सम्बोधित करके तथा ऑंटारियो की बढ़ती तथा वृद्ध हो रही आबादी की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करके 2018 – 19 में \$822 बिलियन के अतिरिक्त निवेश – एक दशक में अस्पतालों का निर्माण करने और सुधार करने के लिए अगले 10 सालों में लगभग \$19 बिलियन का निवेश भी करना।



6. मानसिक सेहत महत्वपूर्ण है

सारे ऑंटारियो में लाखों और ज़्यादा बच्चों, नवयुवकों तथा बालिगों के लिए मानसिक सेहत तथा लतों संबंधी सेवाओं तक बेहतर तथा तीव्रतर पहुंच मुहैया करना - कुल वित्त पोषण को चार सालों में \$17 बिलियन से अधिक तक लाते हुए।



7. बुजुर्गों के लिए घरेलू (होम) देखभाल

घरेलू तथा कम्यूनिटी सेहत देखभाल तक अधिक पहुँच प्रदान करना, जिस में तीन सालों में \$650 मिलियन के निवेश के द्वारा, निजी सहारे के 2.8 मिलियन और अधिक घंटे तथा 284,000 और अधिक नर्सिंग भेंटें शामिल हैं।



8. विकास संबंधी विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए रुकावटें हटाना

विकास संबंधी विकलांगताओं वाले लगभग 47,000 बालिगों के लिए ऐसी पहुँच के द्वारा सेवाओं को मज़बूत करने के लिए \$1.8 बिलियन का निवेश करके न्याय संगत समाज का निर्माण करना जो सूचित चयनों तथा समुदाय में क्रियाशील सहभागिता के योग्य बनाती है।



9. निःशुल्क ट्यूशन के साथ छात्रों की सफलता को सहारा देना

सारी उम्रों के 225,000 से अधिक छात्रों के लिए कॉलेज तथा युनिवर्सिटी ट्यूशन फीस को निःशुल्क करना। कम तथा मध्य आमदनी वाले परिवारों के छात्रों के लिए निःशुल्क या कम ट्यूशन उपलब्ध है; \$90,000 तक कमाने वालों के लिए ट्यूशन निःशुल्क है तथा \$175,000 तक कमाने वाले परिवारों के छात्र भी वित्तीय सहायता के लिए योग्य हैं।



10. न्यूनतम वेतन को बढ़ाना तथा अच्छी नौकरियों का सर्जन करना

1 जनवरी, 2018 को न्यूनतम वेतन को \$14 प्रति घंटे तक तथा 1, जनवरी, 2019 को \$15 प्रति घंटे तक बढ़ा कर सारे ऑंटारियो में 1.2 मिलियन लोगों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित वृद्धि मुहैया करना। प्रांत ऑंटारियो के व्यवसायों, छात्रों तथा ग्रैजुएटों को सहारा देने के लिए तथा अच्छी, अच्छा भुगतान करने वाली नौकरियों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए गुड जॉबज़ ऐंड ग्रोथ प्लैन के द्वारा तीन सालों में नए वित्त पोषण में \$935 मिलियन मुहैया कर रहा है।